



Australian Government

Department of Agriculture  
and Water Resources



जून  
2016  
Hindi

# वाणिज्यिक जहाजों के लिए ऑस्ट्रेलिया की जैवसुरक्षा चेकलिस्ट

यह सुनिश्चित करना कि आपका जहाज ऑस्ट्रेलिया की जैवसुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है, कीटों और रोगों के प्रवेश और फैलाव को कम से कम करने का सबसे अच्छा तरीका है।

## आगमन के लिए तैयार रहें

### कार्यालय में

सही-सही भरी हुई आगमन-पूर्व रिपोर्ट (PAR), बैलास्ट वाटर रिपोर्ट और गैर-प्रथम प्रवेश बिंदु के लिए अनुरोध जमा करें

स्वच्छता प्रमाण पत्र, अपशिष्ट हटाने, कू (जहाज चालक दल) में परिवर्तन या तटीय पट्टी निरीक्षण जैसी सेवाओं के लिए अनुरोध जमा करें

विभाग के निर्देशों को समझें और उनका पालन करें

यह सुनिश्चित करें कि जहाज से संबंधित संगत दस्तावेज अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं

कू (जहाज चालक दल) और यात्रियों को जैवसुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में बता दें

परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में विभाग को जल्दी से जल्दी सूचित किया जाना चाहिए।

यह चेकलिस्ट जहाज ऑपरेटरों को ऑस्ट्रेलिया की जैवसुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मदद करने के लिए केवल एक उपकरण है।  
और अधिक जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है:  
[agriculture.gov.au/biosecurity/avm/vessels](http://agriculture.gov.au/biosecurity/avm/vessels)



## आगमन के लिए तैयार रहें

### डेक पर

जहाज की सुपरसंरचना, डेक और माल लदाई (कार्गो) वाली जगहों का इस बात के लिए निरीक्षण कर लें कि वहां कोई कीट-पतंगे या पानी का जमाव न हो

यह सुनिश्चित कर लें कि डेक और माल लदाई वाले क्षेत्रों में अनाज के कण, बीज या अन्य जैव सामग्रियां न हों

यह सुनिश्चित कर लें कि सभी अपशिष्ट पदार्थ उचित तरीके से कूड़ेदानों में या अपशिष्ट कक्ष में रख दिए गए हों और वहां पशु-पक्षियों का प्रवेश संभव न हो तथा वे कीड़ों, कीटाणुओं इत्यादि से मुक्त हों

यह सुनिश्चित कर लें कि गैली और भंडार क्षेत्र स्वच्छ हों और कीड़ों, कीटाणुओं इत्यादि से मुक्त हों

यह सुनिश्चित कर लें कि पालतू जीव-जंतु जहाज के अंदर रहें और भीतर लगे हुए पेड़-पौधे खुली खिड़कियों से दूर हों

परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में विभाग को जल्दी से जल्दी सूचित किया जाना चाहिए।



कृषि एवं जल संसाधन विभाग (Department of  
Agriculture and Water Resources)

ऑस्ट्रेलिया में

1300 004 605

ऑस्ट्रेलिया से बाहर

+61 8 8201 6185



[maritimenc@agriculture.gov.au](mailto:maritimenc@agriculture.gov.au)  
[agriculture.gov.au/biosecurity/avm/vessels](http://agriculture.gov.au/biosecurity/avm/vessels)